

स्क्रिप कोड: BANKINDIA	स्क्रिप कोड: 532149
उपाध्यक्ष — लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई 400 051.	उपाध्यक्ष — लिस्टिंग विभाग, बीएसई लि., 25, पी. जे. टवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया,

**फंड आधारित उधारी की सीमांत लागत (MCLR) – परिवर्तन
रेपो आधारित उधारी दर (RBLR) - कोई परिवर्तन नहीं
फिक्स्ड रेट स्प्रेड (FRS) – परिवर्तन-01.07.2025 से लागू**

सेबी (सूचीकरण प्रतिबंधों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि धन के आधार पर ऋण देने की दर (MCLR) को 01.07.2025 से बदल दिया गया है। वर्तमान MCLR निम्नलिखित है:

दर प्रभावी डेट	ओवरनाइट एमसीएलआर	1 माह एमसीएलआर	3 माह एमसीएलआर	6 माह एमसीएलआर	1 वर्ष एमसीएलआर	3 वर्ष एमसीएलआर
01.06.2025	8.15%	8.45%	8.60%	8.85%	9.05%	9.20%

2. संशोधित MCLR इस प्रकार है::

दर प्रभावी डेट	ओवरनाइट एमसीएलआर	1 माह एमसीएलआर	3 माह एमसीएलआर	6 माह एमसीएलआर	1 वर्ष एमसीएलआर	3 वर्ष एमसीएलआर
01.07.2025	8.10%	8.40%	8.55%	8.80%	9.00%	9.15%

3. फिक्स्ड रेट स्प्रेड (एफआरएस) फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए 1.50% पर चार्ज किया जाता है। 3 साल की एमसीएलआर और एफआरएस के साथ फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए ब्याज दर 01.07.2025 से 10.65% है। फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए ROI एफआरएस (10.65%) + लागू सीआरपी प्रारूप में उद्धृत किया गया है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त का ध्यान रखें।

भवदीय,

-हस्ताक्षर-

(राजेश वी. उपाध्या)
कम्पनी सचिव